



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

13 भाद्र, 1940 (श०)

संख्या- 846 राँची, मंगलवार

4 सितम्बर, 2018 (ई०)

---

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

-----  
अधिसूचना

21 जुलाई, 2018

**संख्या- 3/पद०-01(ख)-13/2014 का.- 5477--** संयुक्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री रविशंकर वर्मा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-526/03, गृह जिला- पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

**संख्या- 3/पद०-01(ख)-13/2014 का.- 5478--** अपर समाहर्ता, गढ़वा के पद पर पदस्थापित श्री राधेश्याम प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-835बी/03, गृह जिला- नवादा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

- संख्या- 3/पद०-01(ख)-13/2014 का.- 5479--भूमि सुधार उप समाहर्ता, सरायकेला - खरसांवा**
- के पद पर पदस्थापित श्री दीपू कुमार, झा०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला- गिरिडीह) की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक इन्हें अवर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
2. सम्बंधित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से अधिसूचित पद पर योगदान सुनिश्चित करेंगे ।
  3. सम्बंधित नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थानांतरित/पदस्थापित पदाधिकारी के प्रभारान्तरण की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**एच० के० सुधाँशु,**  
सरकार के अवर सचिव ।

-----